

## प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 20.09.2022

### चोरी की मोटर साइकिल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार (थाना सांगीपुर)–

जनपद के थाना सांगीपुर के उ०नि० श्री रोहित कुमार मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के मुरैनी बार्डर से एक व्यक्ति जितेन्द्र सरोज उर्फ टन्ने सरोज पुत्र स्व० हरीलाल सरोज नि० लखनपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को चोरी की एक हीरो सुपर स्प्लेण्डर मोटर साइकिल फर्जी नम्बर प्लेट के साथ गिरफ्तार किया गया। ई-चालान ऐप के माध्यम से चेक किया गया तो मोटर साइकिल का सही रजिस्ट्रेशन नम्बर यूपी 72 एजे 5612 दिखा रहा व वाहन स्वामी का नाम मो० इब्रार पुत्र हलीम उल्लाह नि० कटरा रोड़ करनपुर सदर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ दिखा रहा है। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में **थाना सांगीपुर पर मु०अ०सं० 262/22 धारा 411, 413, 419, 420, 465, भादवि** का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

### पूछताछ का विवरण:–

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मेरे पास से बरामद मोटर साइकिल चोरी की है जो मैंने अपने एक साथी से खरीदी है। जिसे उसने प्रतापगढ़ से चुराया था। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में मु०अ०सं० 150/2020 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। हम दोनो साथी अलग अलग जगहो से गाडियां चुराकर लाते है और दोनो लोग मिलकर रजिस्ट्रेशन नम्बर बदलकर बेंच देते हैं जो हम लोगों को पैसा मिलता है, उसे हम आपस में बांट लेते हैं आज हम इसे बेंचने जा रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिये गये।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1. जितेन्द्र सरोज उर्फ टन्ने सरोज पुत्र स्व० हरीलाल सरोज नि० लखनपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

### बरामदगी–

1. चोरी की 01 हीरो सुपर स्प्लेण्डर मोटर साइकिल (जिस पर गलत नम्बर अंकित)।

पुलिस टीम– उ०नि० श्री रोहित कुमार मय हमराह थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

## **चोरी/लूट के अभियोग से संबंधित चोरी के 01 मोटरसाइकिल, 01 मोबाइल फोन सैमसंग, 1650 रुपये व अन्य दस्तावेजों के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार (थाना लालगंज)**

आज दिनांक 20/09/2022 को थाना लालगंज के उ0नि0 अनीश कुमार यादव मय हमराह देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के खानापट्टी चौराहे से थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 530/2022 धारा 457,380 भादवि, मु0अ0सं0- 469/2022 धारा 457,380 आईपीसी व मु0अ0सं0- 544/2022 धारा- 393,323,504 आईपीसी व 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त सलमान पुत्र मकबूल निवासी ग्राम ककरहिया खानापट्टी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को चोरी की 01 मोटर साइकिल(फर्जी नम्बर प्लेट), एक मोबाइल सैमसंग व 1650 / रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर 03 एटीएम कार्ड , आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ई- श्रम कार्ड बरामद किया गया ।

### **पूछताछ का विवरण -**

गिरफ्तार व्यक्ति ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 08.07.2022 को रात्रि में मैं, रंजीत सरोज पुत्र छोटेलाल सरोज नि0 ग्रा0 खालसा सादात थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ व कमल सिंह पुत्र शेर बहादुर सिंह नि0 ग्रा0 डगरारा थाना लालगंज प्रतापगढ़ के साथ ग्राम पूरे लगड़ा अमांवा नटराज पेट्रोल पम्प के पास एक घर में घुस कर गहने ,वर्तन व कपड़े के साथ साथ गाड़ी भी चुराया था, जिसमें से गहने बर्तन व कपड़े राहगिर को बेच दिये थे व पैसा को हम लोग आपस में बांट लिये थे । खरीदने वाले व्यक्ति का नाम नहीं जानता हूँ, पकड़े जाने के डर से मोटर साइकिल पर नम्बर प्लेट बदल दिया है, मोबाइल को दिनांक 30.07.2022 को मैंने अपने साथी कमल सिंह के साथ मिलकर रामपुर बावली में आनन्द नगर तिराहे के पास एक किराना स्टोर की दुकान से यह मोबाइल चुराया था व कुछ सामान भी हमलोगों ने चुराकर अज्ञात लोगों को बेच दिया था, मोबाइल मैंने जिसको बेचा था वह चोरी का जानकर मुझे वापस कर दिया था और जो रुपये वहां से चुराये थे उसको हम दोनों ने आपस में बांट लिया था जो खर्च हो गये हैं । बरामद पैसे दिनांक 12.08.2022 की शाम मैं, रंजीत व कमल सिंह धधुआगाजन से नहर पट्टी रोड से होकर खानापट्टी जा रहे थे कि रास्ते में एक व्यक्ति का पीछा कर कमल सिंह द्वारा कट्टा दिखाकर गाड़ी रुकवाकर मारपीट कर हम लोग पर्स से 7000/- रुपये के साथ साथ एटीएम कार्ड , आधार कार्ड , वोटर आईडी कार्ड, ई- श्रम कार्ड भी निकाल लिये थे व पर्स वही फेक दिया तथा पैसे को आपस में बांट लिये और एटीएम कार्ड , आधार कार्ड , वोटर आईडी कार्ड, ई- श्रम कार्ड भी अपने घर पर छिपा लिया था ।

**पुलिस टीम-** उ0नि0 श्री अनीश कुमार यादव मय हमराह थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

### **01 वारण्टी गिरफ्तार(थाना महेशगंज)**

थाना महेशगंज के उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0नं0 1599/22 से संबंधित 01 वारण्टी बैजनाथ पुत्र रामकिशुन निवासी राय असकरनपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया ।